

Monday August 31, 2020

Ref. No. CIFL/BSE-26/2020-21

To, The Manager-Listing BSE Limited, 25<sup>th</sup> Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: Intimation in compliance with Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Ref: Newspaper Advertisement - Notice in respect of information regarding 26th Annual General

Meeting of the Company to be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means

(OAVM)

Scrip Code: BSE-530879

Dear Sir / Madam,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 read with Schedule III of the Listing Regulations, and in compliance with General Circular No. 14 /2020 dated 8th April, 2020, General Circular No.17/2020 dated 13th April, 2020 and General Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated 12th May, 2020, please find enclosed herewith copies of the Notice for the attention of the equity shareholders of the Company, published in Jansatta (Hindi) on August 31, 2020 and Financial Express (English) on August 31, 2020 newspapers, in respect of information regarding the 26th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Monday, September 28, 2020 at 11:00 A.M. (IST) through VC/OAVM.

The Notice may also be accessed on the website of the Company at <a href="www.capitalindia.com">www.capitalindia.com</a> under the investors section.

Kindly take the same on record.

Thanking you, For Capital India Finance Limited

#### Rachit Malhotra

Company Secretary & Compliance Officer Membership No.: A39894

Place: New Delhi Encl: As above

Corporate office : A-1402, One Bkc, 14th Floor, G - Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai, Maharashtra- 400051 Registered Office: 2nd Floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

P : +91 22 4503 6000 P : +91 11 4954 6000 E : info@capitalindia.com W : www.capitalindia.com

CIN No: L74899DL1994PLC128577

(Capital India Finance Ltd - Formerly known as Bhilwara Tex-Fin Ltd)

### क्लासीफाइड

### व्यक्तिगत

I, Sunita Rohra W/o Tola Ram Kukreja R/o-1457/101, 3rd floor, Ganesh Pura, Trinagar, Delhi-35, have changed my name to Sadhna Kukreja.

0040546614-3 I, Pratibha Devi,W/o Devendra

Singh, R/o. Flat-308, Pearl Height Apartment, Ramprastha Green, Sector-9, Vaishali,Ghaziabad,have changed my name to

**I,Priti** Kumari,W/o Shailendra Kumar R/o.I-30, Sector-12, Noida, Have changed my daughter's name from Srizan to Srizan Kumar. 0040546614-1

Pratibha Singh. 0040546614-2

I, Sunil Kumar Gupta@ Sunil Gupta S/o Sh.Uday Gupta, R/o A-426/2, Sanjay Colony, Okhla Phase-2, New Delhi-110020 have changed my name to Sunil Gupta for all purposes.

0040546541-1

I, CAROLINE D/o Mayur Pinto Nair R/o 51C Kamal Park Palam Road New Delhi-45 have changed my name to Caroline Nair for all purposes. 0040546577-8

**I,** Amrendra kumar Sengar R/O, 11B, HUDCO PLACE, Andrewsgunj Ext, New Delhi-110049, have changed the name of my minor child aged 12 years from Aaryan Aditya to Aryan Aditya 0070712519-1

I, Ajay Vashisht R/o Flat No. A/1/3 Police Station Defence Colony New Delhi-110049 have changed my minor daughter's name from Harshita Vashisht to Riddhi Vashisht for all pur-0040546533-1

I, Ajay Vashisht R/o Flat No. A/1/3 Police Station Defence Colony New Delhi 110049 have changed my minor daughter's name from Harshikha Vashisht to Siddhi Vashisht for all purposes. 0040546535-1

l Pushpa Lata Kumari W/O Ram Chandra Jha, R/O RZ E-61, Flat No. 101, Bengali Colony, Mahavir Enclave, New Delhi-110045: declare that I am also known as Pushpa Lata Jha. Pushpa Lata Kumari and Pushpa Lata Jha is one

and the same person; for all

my future purpose.

0040546506-1 I Indrajit Singh S/O, Charanjit

Singh Chadha R/o Shop Plot No-65, 2nd Floor, Pandav Nagar, Delhi- 110092 have changed my name to Indrajit Singh Chadha for all purpoes. 0040546537-1

### नियुक्तियां

#### VISHWAS COLLEGE OF EDUCATION Pataudi, Distt. Gurugram(HR. Approved by NCTE & Affiliated to harishi Dayanand University, Rohta

Ph.: 9812420323, 7988221804 Following regular staffs are Required for B.Ed. as per NCTE/MD.Univ./ Higher Education Haryana Norms.

1.1 PRINCIPAL - 01 2.) LECT. IN EDUCATION - 04 3.) LECT. IN Pedogoy Sub.- 04 (Math, Science, Soc. Sc., Comm.) 4.) Lect. in Language - 04 5.) Lect. in Fine Arts - 01 6.) Lect. in Phy. Edu./Health-01 7.) Lect, in Performing Arts -01

For all above posts Qualification should as per NCTE/ MD Univ./Higher Education Haryana Norms ADMINISTRATIVE STAFF 1.) MANAGER - 01 -

2. LIBRARIAN - 01 3.) Office cum Account Asst. - 01 4.) Office Asst. cum Comp Opertr-01 5.1 Store Keeper - 01 6.) Technical Assistant - 01

7.) Lab Attendants/Helper /Support Staff - 02 Note:- Application in duplicate alongwith & recent photographs & attested photocopies of testament should reach within 21 days in the office of President of college & one same copy of application should be submitted in the office of Dean College Development Council, M.D. University, Rohtak by registered

PUBLIC NOTICE

For and on behalf of my clients Kishore both S/o Kundan Lal Dua both R/o UP-43. Pitam Pura, Delhi-34, Surender Kumar (Advocate) serve this public notice that my clients has pub lished an article for lost of property doc uments of Property Bering No. BE-266, 60 Sq.Yds., Khasra No. 1907, area of Village Tehar, Hari Naga Delhi-110064 in JANSATTA & INDIAN

EXPRESS on dt. 09.07.2020, in the above publication area of the property i wrongly mentioned as 60 sg.mtrs nstead of 60 sq.yds. In actually the area of the said property is 60 sq.yds., so in the said publication area shall be read

as 60 sq.yds. **SURENDER KUMAR** (Advocate Shop No. Ru-6, Pitampura, Delhi

### "IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

# राहुल को पार्टी का नेतृत्व करने से रोका गया तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी: राउत

मुंबई, 30 अगस्त (भाषा)।

शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि राहल गांधी को कांग्रेस का नेतत्व संभालने से रोकना देश की इस पुरानी पार्टी के अस्तित्व को ही नष्ट करने वाला सिद्ध होगा।

विकेजे इन्क्रडिवेलपरस लिमिटेड CIN: L45400DL2010PLC200014 पंजीकृत कार्यालय : बी-32, मू/जी/एफ/बी/एस, ऑफ़िस नंबर 1, फस्टे फ्लोर सम्भव

गॅफिरेंस नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर, सुभोष चौक, निवर हीरा स्वीटस, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

ई-मेल : vkjinfradevelop@yahoo.com

वेबसाइट : www.vkjinfra.com,

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 11वा वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुबबार, 23 सितम्बर, 2020 को प्रात : 9:00 बजे नवकर तीर्थ अतिसे क्षेत्र, गांव नीलवाल, नजदीक महाविदे क्षेत्र, बेबरा, रोहतक रोड, दिल्ली-110081 में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज

कथित सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थित पर्वी और निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षत वित्तीय विवरण से आमिल वार्षिक रिपोर्ट 31 **अवस्त**,

2020 को सभी सदस्यों के पंजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर भेज दी गई है और ये कन्पनी की वेबसाइट ww.vkjnfrg.com

पर भी उपलब्ध है तथा एजीएम की सूचना नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट https:

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20वं

साच पटित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 व अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्पोरिटीज डिपॉजिटर

अनुसरण म सदस्या का नशानत सिन्धारिका विभागित है लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई "रिमोट ई-बोर्टिंग" के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी मी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक बोर्टिंग प्रणाली का उपयोग

करके एजीएम में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के माध्यम से सभी कामकाज निष्पादित किये जा

रिमोट ई-बोटिंग अवधि 20 सितम्बर, 2020 (प्रात : 9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 22 सितम्बर, 2020 (सार्य 5:00 बजे) बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण

अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाव

एनएसडीएल द्वारा ई-बोटिंग मीड्यूल हटा लिया जाएगा। मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को (सार्व 5:00 बजे) व्यवसाय घंटों की सुमाप्ति के बाद रिमोट ई-बोटिंग

सितम्बर, 2020 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपातिक होगा। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को कम्पनी का सदस्य है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में

मतदान द्वारा एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्ताव पर अपना वोट देने के लिए योग्य है।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता और एजीएम की सुचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य

बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है

वह रिमोट ई-बोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग

के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना बोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति

evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मैजकर लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। वहापि, यदि सदस्य पहले से

के माध्यम से अपना बोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना बोट नहीं दिया है, केवल वही एजीएम में अपना वोट देने

हे पात्र होंगे। रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना वोट

देने वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें

ई-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत

उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर संकते हैं या ई-मेलः

भर्गुजल का जवलाका कर सकत है या एनएसडीएल evoting@msdl.co.in पर लिख सकते हैं या एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल की नं. 1800222990 पर सप्पर्क कर सकते हैं या श्री जितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट्री सिमिटेड, ट्रेंड् वर्ल्ड-ए

गर्नाना तिक्यारिटाल विज्ञाना हुए स्टब्स्ट स्टिंग, कमला मिल्स कम्याउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर सकते हैं। किसी भी शिकायत्∕समस्या के लिए सुद्स्युगण **मैसर्स एमसीएस शेप्र ट्रांसफर** 

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की वार्षिक आम बैठक के प्रवोजन हेतु कम्पनी के सदस्यों का रिजस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक 18 सितम्बर, 2020 से 21 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिस)

बैठक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपना बोट दे सकता है बशत कि सभी प्राक्सी के

लिए निर्धारित प्रारूप/बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने

के लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित प्रोक्सी फार्म बैठक

से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया

नेगोटियम इंटरनेशनल देड लिमिटेड

CIN: L74999DL1994PLC062446

**पंजीकृत कार्यालय :** 3/12, ग्राउंड फ्लोर,

वेबसाइट : www.mahadushiinternational.com

मोटल/रिजॉर्ट, अलीपुर, मेन जी.टी. रोड, नियर

पल्ला मोड, दिल्ली-110036 में आयोजित की जाएर्र

जिसमें एजीएम की सुचना में निर्धारित कामकाज का निष्पादन

कथित सचना के साथ प्रॉक्सी फार्म, उपस्थिति पर्ची और

निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीधकों की रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षित

वित्तीय विवरण से शामिल वार्षिक रिपोर्ट 31 अगस्त,

2019 को सभी सदस्यों के पंजीकृत पते या ई-मेल आईडी पर

भेज दी गई हैं और यें कम्पनी की वेबसाइट

www.mahadushiintemational.com पर भी उपलब्ध है तथा

एजीएम की सुचना नेश्वनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

(एनएसडीएल) की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर

कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के

साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के

अनुसरण में सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी

तेमिटेड (एनएसडीएल) बारा उपलब्ध कराई गई 'रिमोट

र्ट-बोटिंग" के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी

मी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके

एजीएम में सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट

माध्यम से सभी कामकाज निष्पादित किये जा सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 21 सितम्बर, 2020 (प्रात

9:00 बजे) प्रारंभ होगी और 23 सितम्बर, 2020 (सार्व

अपना वॉट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दे सकते हैं। उसके बाद

एनएसडीएल द्वारा ई-बोटिंग मीड्यूल हटा लिया जाएगा। बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को (सार्व 5:00 वर्ण) व्यवसाय घंटों की समाप्ति के बाद रिमोट ई-बोटिंग की

अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि 17

सतम्बर, 2020 (कट-ऑफ तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त

इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हारा चारित इक्विटी शेयरों के

अनुपालिक होगो। कोई भी व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को

कम्पनी का सदस्य है, वह रिमोट ई-वोटिंग वा एजीएम मे

तदान द्वारा एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिगृहित करता है

और एजीएम की सुचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य

बनता है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारण करता है,

वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में बैलेट पेपर द्वारा वोटिंग

के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों

पर अपना वोट देने के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति

www.evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेजकर लॉगइन

आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यद्यपि, यदि सदस्य

पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट

ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के लिए अपने

वर्तमान कनर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से बोट देने की सविधा

उपतब्ध कराई जाएगी और बैठक में उपस्थित होने वाले

सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना

वोट नहीं दिया है, केवल वहीं एजीएम में अपना वोट देने के

पात्र होंगे। रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपना बोट देने

वाले सदस्य भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें

-वोटिंग पर किसी भी पूछताछ के लिए वेबसाइट

www.evoting.nsdl.com पर हेल्प सैक्शन के अंतर्गत

उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का अवलोकन कर संकृते हैं या ई-मेलः

evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं या एनएसडीएल

हारा उपलब्ध कराये गये टोल की नं. 1800222990 पर सन्पर्क

कर सकते हैं या श्री नितिन एमबुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल

सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड-ए विंग, कमला

मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुम्बई-400013 से सम्पर्क कर

मैसर्स एमसीएस शेवर ट्रांसफर एजेंट सिमिटेड.

कम्पनी के रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट से भी सम्पर्क

ा मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की

वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन हेत् कम्पनी के सदस्यों का

रजिस्टर और शेवर ट्रांसफर बुक 19 सितम्बर, 2020 से 22 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिवस शामिल)

बैटक में भाग लेने एवं वोट देने का हकदार व्यक्ति स्वयं

व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम

से भी अपना वोट दे सकता है बशर्ते कि सभी प्राक्सी के लिए

निर्धारित प्रारूप बैटक में उपस्थित होने एवं वोट देने के

लिए व्यक्ति द्वारा विधिवत् सत्यापित प्रॉक्सी फार्म बैठक से

48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया गया

(पूर्व में महादुर्श इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेंड के रूप में जाना जाता है)

बोर्ड के आज्ञानसार

पूर्ण कालिक निदेशक

हस्ता /

नेगोटियम इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेड

सकते हैं। किसी भी शिकायत/समस्या के लिए सदस्यग

कर सकते हैं।

दिनांक : 31.08.2020

एजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

पर अपना बोट देने के लिए योग्य है।

सुविधा प्रदान की जाती है और ऐसी वोटिंग के

बंद होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्यगण

एक अली रोड, नई दिल्ली - 110002 ई मेल आई डी : maitrade@yahoo.com,

बोर्ड के आज्ञानुसार विकेने इन्कडिवेलपरस लिमिटेड

हस्ता/-

अगस्टीन कच्छप

र्जेंट से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

रजीएम में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

आईडी एवं पासवडं का उपयोग कर सकता है।

एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग

अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्यों का वोटिंग अवधि 16

evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

श्च निष्पादन किया जाएगा।

राउत ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में प्रकाशित

अपने साप्ताहित स्तंभ 'रोखठोक' में लिखा है कि कांग्रेस में एक ऐसे नेता की कमी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहे। उन्होंने 23 कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को पूर्णकालिक सिक्रय नेतृत्व को लेकर लिखे गए पत्र का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि इन नेताओं को सक्रिय होने से कौन रोक रहा है।

# Muthoot Finance

मुथूट होमफिन (इंडिया) लि. कॉर्पोरेट कार्यालय: 1201 एवं 1202, 12वाँ तल, 'ए' विंग, लोटस कॉर्पोरेर पार्क, ऑफ. वेस्टर्न एक्स्प्रैस हाइवे, गोड़ेगाँव (पूर्व), मुम्बई-400063

(प्रतिभति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनसार जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना जारी कर ऋणधारक श्री महावीर सिंह, श्रीमती सुमन को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अनुबंधित दर पर ब्याज तथा 24% प्रति वर्ष की दर से दण्ड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ मांग सूचना तिथि26.9.2019 में वर्णित राशि रु. 1046193

(रुपये दस लाख छियालिस हजार एक सौ तिरानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदृद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित

सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 1.8.2019 से उस पर ब्याज तथा 24% की दर से दण्ड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ रु. 1046193 (रुपये दस लाख छियालिस हजार एक सौ तिरानवे मात्र) के लिये मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड के चार्ज के अधीन ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में

अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तिः प्लॉट नं. 60, खसरा नं. 505, पिंक सिटी 2, तहसील दादरी, जीबी नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-203207 का सभी भाग तथा हिस्सा जिसका विशेष रूप से विवरण संयुक्त उप रजिस्ट्रार दादरी के कार्यालय में दस्तावेज सं. 11862, तिथि 14.6.2018 के रूप में पंजीकृत बिक्री प्रलेख में वर्णित है। चौहद्दीः उत्तरः ठाकुर का प्लॉट, दक्षिणः खाली प्लॉट, पूर्वः खाली प्लॉट, पश्चिमः 18 फीट

अचल सम्पत्ति का विवरण

तिथि: 27.8.2020 प्राधिकृत अधिकारी मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड स्थानः नोएडा

### प्रपत्र - ख सार्वजनिक घोषणा

दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	ग्लोबल इन्फोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
2	कॉर्पोरेट देनदार के निगमन की तारीख	27 दिसम्बर, 2007
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) दिल्ली
4	कॉर्पोरेट देनदार की कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ सीमित दावित्व पहचान संख्या	U51101DL2007PTC171871
5	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रिंसिपल ऑफिस (यदि कोई है तो) का पता	सी–143, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, ओखला, दिल्ली–110020
6	दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया की समापन तिथि	20 अगस्त, 2020
7	कारपोरेट देनदार के परिसमापन प्रारम्भ होने की तिथि	21 अगस्त, 2020 (प्रमाणित आर्डर की कॉपी प्राप्ति की तिथि 27.08.2020)
8	परिसमापक का नाम, यता, ई-मेल पता, दूरभाष नंबर तथा पंजीकरण संख्या	नाम : योगेन्दर पाल सिंघल आई.पी. रजि. नंo— IBBI/IPA-001/ IP-P00492/2017- 18/10880
9	परिसमापक का पता, ई—मेल जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	पताः बी—292, अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, सेक्टर—14, रोहिणी, नई दिल्ली—110085 ई—मेल : ipyogendersinghal@gmail.com
10	परिसमापक के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई—मेल	पताः बी–292, अपर ग्राउंड फ्लोर, प्रशांत विहार, सेक्टर–14, रोहिणी, नई दिल्ली–110085

दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 सितम्बर, 2020 एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी प्राधिकरण की प्रधान पीठ (नई दिल्ली) ने 21 अगस्त, 2020 ( प्रमाणित आर्डर की कॉपी प्राप्ति की तिथि 27.08.2020) को ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्युशन प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापन का आदेश दिया है। ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्युशन प्राईवेट लिमिटेड के लेनदारों को इसके द्वारा 26 सितम्बर 2020 को या उससे पहले सबूत के साथ अपने दावे परिसमापक के पते पर प्रस्तुत तदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 26वी वार्षिक आमे बैठक (एजीएम) गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 को प्रात : 9:00 बजे आउटसाईट रीट्रीट करने के लिए कहा जाता है, जिसे की मद संख्या 10 के सम्मुख उल्लेख किया गया

ई-मेल : irp.globalinfonet@gmail.com

वित्तीय लेनदार अपने दावों के प्रमाण केवल इलेक्टोनिक माध्यम से जमा करेंगे। अन्य सभी लेनदार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रोनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

असत्य या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर जुर्माना किया जा सकता है।

योगेन्दर पाल सिंघल पंजीकृत सं. IBBI/IPA-001/IP-P00492/2017-18/10880 दिनांक: 29.08.2020 परिसमापकः स्थान : नई दिल्ली ग्लोबल इन्फोनेट डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड के लिए

### सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India 1911 से आपके लिए "केवित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

### शाखा कार्यालयः ६६, जनपथ, नई दिल्ली-110001

कब्जा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना तिथि 16.2.2020 जार्र कर ऋणधारक: मै. मारुति ओवरसीज, द्वारा उसके प्रॉपाईटर श्री अशोक कुमार तथा गारन्टरों श्रीमती लता रानी गोइनका एवं श्री सुरज कुमार गोइनका को सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रु 1,63,22,778/- (रुपए एक करोड़ तिड़ेसठ लाख बासठ हजार सात सौ अठहत्त मात्र) के साथ उपचयित ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक/गारन्टरों तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज, 27 अगस्त, 2020 के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 1,63,22,778/- (रुपए एक करोड़ तिडेसठ लाख बासट हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) तथा 16.02.2020 से उस पर ब्याज के लिये सेन्ट्रल

बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली शाखा के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण सम्पत्ति सं. बी-1/1, 1ला तल, ब्लॉक बी, राणा प्रताप बाग, नई दिल्ली 110007 में शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

चौहद्दी इस प्रकार है:

उत्तरः रोड. दक्षिणः सम्पत्ति सं. बी-1/1 का भाग, पूर्वः सम्पत्ति सं. बी-1/2 का भाग. पश्चिमः रोड

 बिना छत के अधिकार के सम्पत्ति सं सी-27, प्रा. शॉप नं. 3, भतल पर, सावन पार्क, निकट अशोक विहार फेज-III, दिल्ली-110052 का सभी भाग तथा हिस्सा सम्पत्ति की चौहद्दी

दक्षिणः शॉप नं, 2

उत्तरः शॉप नं, 4 पूर्वः सम्पत्ति सं. सी-29

पश्चिमः रोड तिथि: 27.08.2020 स्थानः नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी सेंटल बँक ऑफ इंडिया

Place: Mumbai

Dated: 31st August, 2020

# शुरू होगी निविदा प्रक्रिया

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 30 अगस्त।

नौसेना के लिए छह पारंपरिक पनड्ब्यियों के निर्माण के वास्ते 55,000 करोड़ रुपए की वृहद परियोजना की निविदा प्रक्रिया अक्तूबर तक शुरू की जाएगी। चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत के मद्देनजर ये पनडुब्बियां भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मताबिक, रणनीतिक भागीदारी मॉडल के तहत भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। इसके तहत

घरेलू कंपनियों को देश में अत्याधुनिक सैन्य उपकरण निर्माण के लिए विदेशी रक्षा कंपनियों से करार की अनुमित होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के संबंध में आरएफपी (अनुरोध प्रस्ताव) जारी करने के लिए पनडुब्बी की विशिष्ता और अन्य जरूरी मानदंड को लेकर रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की अलग-अलग टीमों द्वारा काम पुरा हो चुका है ।

अक्तूबर तक आरएफपी जारी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय परियोजना के लिए दो भारतीय शिपयार्ड और पांच विदेशी रक्षा कंपनियों के नामों की संक्षिप्त सूची बना चुका है। इसे 'मेक इन इंडिया' के तहत सबसे बड़ा उपक्रम बताया जा रहा है। अंतिम सुची में शामिल भारतीय कंपनियों में एलएंडटी ग्रुप और सरकारी मझगांव डॉक लिमिटेड (एमडीएल) हैं, जबिक चूनिंदा विदेशी कंपनियों में थायसीनक्रुप मरीन सिस्टम (जर्मनी), नवानितया (स्पेन) और नेवल ग्रुप (फ्रांस) शामिल हैं। शुरुआत में रक्षा मंत्रालय एमडीएल और एल एंड टी को आरएफपी जारी करेगा तथा दोनों कंपनियां दस्तावेज मिल जाने के बाद अपनी विस्तृत निविदा पेश करेंगी। इसके बाद एल एंड टी और एमडीएल को पांच चुनिदा कंपनियों में से एक विदेशी भागीदार का चयन करना होगा।

### प्रपत्र-'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता

	स	माधान :	प्रक्रिया) विनियमावली,	2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन			
	0 20 2 0 0 0			क विवरण			
1,	A11 11 20 4 17			रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड			
2.			Committee Committee	05/01/1990			
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पीरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है			रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज – दिल्ली			
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या			U74999DL1990PLC123785			
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता			पलैट नंबर 2, पहली मंजिल, एफ —50बी मधु विहार एक्सटेंशन घटपड़गंज, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, डीएल — 110092 भारत (एमसीए वेबसाइट के अनुसार)			
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरंभन की तिथि			30/09/2019 (15/10/2019 को माननीय एनसीएलटी, दिल्ली, कोर्ट नं III के आदेश द्वारा अघोडरताक्षरी को IRP के रूप में नियुक्त किया गया था)			
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि			31/08/2020			
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की बाह्यता			विवरण cirp.rohtas@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।			
9.	धारा २९क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंब			विवरण cirp.rohtas@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है।			
10.	अभिरूचि की व	भिव्यक्ति व	ठी प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	15/09/2020			
11.	संगायित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि			18/09/2020			
12.	अतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अतिम तिथि			23/09/2020			
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि			03/10/2020			
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि			23/09/2020			
15.	मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना इरापन तथा अतिरिक्त		एवं गोपनीयता वचन तथा ले उपरांत, केवल योग्य संभावि (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैं	016 के अन्य प्रावधानों के अनुसार प्रासांगिक सीआईआरपी विनियमों नदारों की समिति द्वारा नियारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने के त समाधान आवेदकों के साथ समाधान योजना के लिए अनुरोध ट्रैक्स, सूचना ज्ञापन और अन्य जानकारी समाधान प्रोफेशनल द्वारा			
16.	समाधान योजन	च प्रस्तुत व	रने हेतु अंतिम तिथि	23/10/2020			
17.	समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सीपने की विधि	समाधान और अन्य कॉपी के	माधान योजना और समर्थन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप (पासवर्ड संरक्षित फाइल) में ईमेल द्वारा ग्रान प्रोफेशनल को cirp.rohtas@gmail.com पर प्रस्तुत किये जाने चाहिए। और 2 समाधान योजना अन्य दस्तावेजों वाली इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड संरक्षित फाइल का पासवर्ड, उपर्युक्त दस्तावेजों की हार्ड के साथ समाधान प्रोफेशनल को एफ-1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 पर / व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।				
18.	निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि			26/10/2020			
19.			म और रजिस्ट्रेशन नंबर	मुकेश गुप्ता पंजीकरण सं: IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254			
20.	समाधान प्रोफेर बोर्ड में पंजीबद्ध	ानल का न  है	म, पता और ई–मेल, जैसाकि	मुकेश गुप्ता पताः एफ –1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 ईमेलः camukeship@rediffmail.com			
21.	. पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के साध पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है			पताः एफ –1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 इमेलः cirp.rohtas@gmail.com			
		-	Dayler Commence of the Commenc				

22 अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है विवरण cirp.rohtas@gmail.com पर ईमेल करके मांगा जा सकता है। 23. प्रपन्न "जी" के प्रकाशन की तिथि 31/08/2020 मुकेश गुप्ता रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए समाधान प्रोफेशन तिथि: 31.08.2020 पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254 स्थान: नई दिल्ली एफ -1, मिलाप नगर, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110059

RAM RATNA WIRES LIMITED

(CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B.Marg, Worli, Mumbai 400 013 ◆ Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144 Email Id: investorrelations@rrglobal.com • Website: www.rrshramik.com

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 28" AGM.

The AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5th May, 2020 8" April, 2020 and 13" April, 2020 and SEBI circular dated 12" May, 2020 (collectively referred to as "circulars"). The instructions for joining the AGM though VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 has been sent electronically to all the members at their email address as registered with the Company/Depository Participant in compliance with the above circulars These documents are also available on the Company's Website www.rrshramik.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The Members who have not registered their email address are requested to register their email address with Depository Participant if shares are held in dematerialised form and if shares are held in physical form than register the same with the Company / RTA at investorrelations@rrglobal.com or sandeep@bigshareonline.com by providing details such as Name, Folio No., Certificate No., PAN, mobile no.

NOTICE pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Thursday, 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and ascertainment of members for entitlement of dividend on equity shares of the Company for the financial year 2019-20, if approved by the members in the AGM. The Members are requested to update/register their Electronic clearing system (ECS) with complete bank details in order to receive dividend directly to their bank account with Depository Participant if shares are held in dematerialised form or with Company's RTA if shares are held in physical form at E mail: investor@bigshareonline.com, sandeep@bigshareonline.com by providing

The e-voting period commences on Monday, 21th September, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 23rd September, 2020 at 5.00 p.m. During this period the Shareholders of the Company holding shares either in Physical form or in dematerialised form, as on cut-off date i.e. Friday, 18th September 2020, may cast their vote electronically through electronic voting system provided by NSDL. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice but holds shares as on the cut-off date i.e. 18" September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries regarding attending of AGM or e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800-222-990.

By Order of the Board of Directors For Ram Ratna Wires Limited

Saurabh Gupta Company Secretary

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 28 अगस्त, 2020

# Classifieds **EXPRESS EDUCATION**

**GS ECONOMICS** of Ramesh Singh, McGraw-Hill Android app/Desktop/Laptop

Register FREE on android app **Ramesh Singh CLASSES** to join Free/Paid courses

Admission is open in English medium course

(HINDI medium course to start shortly)

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841

भगवानदास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड परिसमापक का पता: 416, क्रिस्टल पैराडाईज को-ऑप.-सो. लि., दत्ताजी सार्ल्व

मार्ग, पिज्जा एक्स्प्रैस के ऊपर, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई-400053 सम्पर्कः ++91 9137058928, ईमेलः irp.bipl@gmail.com

बिक्री सूचना तिथि 22.7.2020 का शुद्धिपत्र नीलामी की विस्तारित तिथि एवं समय: 30.9.2020 (बुधवार) 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.

(प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) परिसमापन प्रक्रिया विनियमनों के विनियमन 33 के साथ पठित आईबीसी 2016 की धारा 35 (एफ) के अंतर्गत परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली भगवानदास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) वे स्वामित्व की परिसम्पत्तियों की बिक्री ई-नीलामी ''जैसा है जहां है. जो भी जैसा है तथा उपचार-रहित आधार'' फ

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेबसाईट https://ncltauction.auctiontiger.net द्वारा ई-नीलामी सेवा प्रदात ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड Auction Tiger के माध्यम से की जायेगी।

क्रम सं.	परिसम्पत्तियां		आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि राशि
	एडिशनल मुरबाद इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी, ग्राम कुडावली, तालुका– मुरबाद, जिला थाने– 421401 में स्थित भूमि (प्लॉट नं. एच 20)	10033	1,59,25,000	15,92,500	,.
निरी	क्षण की अंतिम तिथि : 24 सितम्बर, 2020 (				

**ईएमडी जमा करने की अंतिम विस्तारित तिथि:** 28 सितम्बर, 2020 (सोमवार) 5.00 बजे अप. तक

**ई-नीलामी की विस्तारित तिथि एवं समय**: 30 सितम्बर, 2020 (बुधवार), 11 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. **टिप्पणी**: विस्तृत नियम एवं शर्तें, ई-नीलामी बोली दस्तावेज, उद्घोषणा तथा ऑन लाइन नीलामी बिक्री के अन्य विवरण https://ncltauction.auctiontiger.net पर उपलब्ध हैं। बिक्री की ई-नीलामी सूचना, बोली दस्तावेज, उदघोषणा तथा ऑनलाइन नीलामी बिक्री के अन्य विवरण पर्ववत अपरिवर्तित रहेंगे। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये irp.bipl.@gmail.com पर कृपया अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें। प्रजक्ता मेनेजेस स्थानः मुम्बई

आदेश तिथि 14 फरवरी, 2020 के माध्यम रं भगवानदास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के परिसमापक के रूप आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P01349/2018-19/12016 पताः 416, क्रिस्टल पैराडाईज को-ऑप.-सो. लि.. दत्ताजी साल्वी मार्ग. पिज्जा एक्स्प्रैस के ऊपर, ऑफ वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई-400053

ईमेलः irp.bipl@gmail.com

### **CAPITAL** INDIA

कैपिटल इंडिया फाइगेंस लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या ( सी आई एन ): L74899DL1994PLC128577 पंजीकृत कार्यालय: द्वितीय तल, डी एल एफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन नं. 011-49546000 विवसाइट: www.capitalindia.com इंमल आईडी: secretarial@capitalindia.com

बीडियो कॉफ्रेंसिंग (बीसी)/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों-ओएबीएम- के माध्यम से आयोजित होने वाली 26वीं वार्षिक आम सभा के बारे में सुचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 -अधिानियम- के लागू प्रावधानों व उसके अंतर्निहित नियमों और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं वे प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 (सचीबदध विनियम') जिसे निगमित मामलों के मंत्रलाय **( एमसीए )** द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020, दिनांक क्रमश: 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ–साथ भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी परिपत्र) द्वारा जारी परिपत्र सं- SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और एमसीए और सेबी द्वारा जारी ऐसे अन्य लागू परिपत्रों (यहां के बाद संयुक्त रूप से परिपत्र कहा जाएगा) व साथ पढ़ा जाने वाले परिपत्रों के अनुपालन में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड **( कंपनी )** की सोमवार, 28 सितम्बर 2020 को सुबह 11 बजे (भारतीय समयानुसार) वीडियो कॉफ्रेंसिंग ( **वीसी** )/अन्य ऑडियो विजअल माध्यमाँ ( **वीसी/ओएबीएम**)पर आयोजित होने वाली 26वीं वार्षिक आमसभा ( एजीएम ) में 31 जलाई 2020 की सचना में वर्णित कार्यकलापों को कार्यान्वित

किया जाना है। ई-मेल के माध्यम से सचना व वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा रही हैं : ऊपर वर्णित परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम आयोजन की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रति के साथ-साथ अधिनियम की धारा 102 के अनुपालन में व्यावख्यात्मक विवरण और वित वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेज दी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/जमाकर्ता प्रतिभागियों के पास पंजीकत हैं। **वार्षिक रिपोर्ट** सहित एजीएम की यह सचना कंपनी की वेबसाइट www.capitalindia.com, सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com और उस स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां ये इसके इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं जैसे बीएसई की वेबसाइट

www.bseindia.com पर उपलब्ध हैं। एजीएम में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग और प्रतिभागिता : एंजीएम के आयोर्जन स्थल के अतिरिक्त दूसरी जगह से इलैक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (रिमोट ई-वोटिंग) का प्रयोग कर वीसी/ओवीएम के जरिए एजीएम में प्रतिभागिता और एजीएम के दीरान इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने (ई-वोटिंग) की सुविधा कंपन सदस्यों को उपलब्ध कराएगी। बीसी/ओएबीएम के माध्यम से एजीएम में हिस्सा लेने वाले सदस्य, अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के उददेश्य से गिने जाएंगे।

ई-मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने का तरीका भौतिक रूप में शेयर रखे हुए सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकत/ अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) को einward.ris@kfintech.com अथवा secretarial@capitalindia.com पर्ते पर कंपनी को लिखकर अपना ई-मेल पता अपडेट करने के लिए अनुरोध करें। साथ में अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति उस फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम व पता लिखकर, शेयर सर्टिफिकेट (आगे व पीछे से). पैनकार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, पते के साक्ष्य के रूप में (ड्राइविंग लाइसँस, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार आदि) किसी भी दस्तावेज की एक स्व-सत्यापित प्रति साथ संलग्न करें। गैर-भौतिक रूप में शेयर धारण किए हुए सदस्यों से आग्रह है कि वे संबंधित डिपॉलिटरी भागीदर के पास अपने ई-मेल पते को पंजीकत/अपडेट करें।

लाभांश प्राप्त करने का तरीका इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (ईसीएस) या किसी अन्य माध्यम से लाभांश को सीधे अपने खाते में पाने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे बताए गए तरीके से अपने बैंक की पूरी जानकारी

पंजीकृत/अपडेट करें : भौतिक रूप में शेयर रखे हुए सदस्य आरटीए या कंपनी को einward.ris@kfintech.com अथवा secretarial@capitalindia.com पते पर ई-मेल लिख सकते हैं। इसके साथ इन दस्तावेजों को लगाना होगा 1. अनुरोध पत्र की रुकैन कॉपी जिस पर सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बैंक की जानकारी (बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम, शाखा का नाम व पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) 2. पैनकार्ड की स्व-सत्पापित प्रति और 3. कैंसिल चैक की प्रति

जिसपर शेयरधारक का नाम प्रिंट हो डिमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपने उन डिपॉजिटरी भागीदारों से संपर्क कर सकते हैं जिनके पास उन्होंने डिमैट अकाउंट रखे हुए हैं। डिपॉजिटरी भागीदारों द्वारा सुझाए गए तरीकों से

वे अपने वेंक खातों की जानकारी पंजीकृत/अपडेट करा सकते हैं-बैंक खाता न होने पर, कंपनी इलेक्टोरिक मोड द्वारा किसी भी सदस्य को लाभांश का भगतान नहीं ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका :

कर पाएगी, कंपनी डाक द्वारा ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट/अन्य भगतान माध्यम प्रेषित करेगी। सदस्यों को ई-बोटिंग सिस्टम द्वारा एजीएम की सृचना देते हुए सृचना में वर्णित व्यापार पर रिमोट रूप से अपने बोट डालने का अवसर दिया गया है। है-बोटिंग की एजीएम में केवल उन सदस्यों को दी

जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपने बोट नहीं डाले हैं। लॉग-इन क्रिडोशियल और रिमोट ई-बोटिंग के द्वारा और वोट डालने व एजीएम के दौरान ई-बोटिंग की प्रक्रिया उक्त दिए गए तरीके में अपने ई-मेल रजिस्टर कराने के बाद ई-मेल द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। कृपया ध्यान दें कि एजीएम के दौरान प्रस्तावों पर ई-वोटिंग और

वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए लॉग-इन क्रिडेॉशयल आवश्यक हैं। ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। विवरण कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

यह सूचना एमसीए व संबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी व लाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड रचित मल्होत्रा कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

www.readwhere.com

**FINANCIAL EXPRESS** 

(In Liquidation)

JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L15140UP1989PLC011396 Regd Office: Village Tilmapur, Ghazipur Road, Ashapur, Varanasi - 221007

Corporate Office: Room No. 902A, Diamond Prestige, 41A, AJC Bose Road, 9th Floor, Kolkata- 700017 Website: www.jvlagro.com

NOTICE OF ADJOURNED ANNUAL GENERAL MEETING OF JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED FOR THE FINANCIAL YEAR 2018-19

NOTICE is hereby given that the 30" Annual General Meeting (AGM) of the Company for the Financial Year 2018-19 which was scheduled on Friday, 28th August, 2020 at 11.00 a.m. through Video-Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), was adjourned for want of quorum. As per the decision of Liquidator, the said AGM will now be held on Friday. 4" September, 2020 at 11.00 a.m. through Video-Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020 and 5th May, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR /P/2020/79 dated 12" May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"). The agenda for the adjourned AGM remains same as of original AGM Notice dated 21" July

For JVL Agro Industries Limited

Supriyo Kumar Chaudhuri Liquidator

### **Panasonic** PANASONIC APPLIANCES INDIA COMPANY LIMITED

29" August, 2020

CIN: U30007TN1988PLC016184 Regd. Office: National Highway No.5, Sholavaram Village, Ponneri Taluk, Chennai - 600 067 Tel: +91-44-26330133 Fax: +91-44-26330132

Website: www.panasonicappliances.in E-mail: papin.secretary@in.panasonic.com

NOTICE OF THE THIRTY SECOND ANNUAL GENERAL **MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING** 

NOTICE is hereby given that the Thirty Second Annual General Meeting ('32nd AGM') of the members of Panasonic Appliances India Company Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Friday, September 25, 2020, at 10:00 a.m. IST, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020, General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020 and General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the business as set out in the Notice dated August 10, 2020 calling the AGM.

As per Rule 11 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the notice of AGM and the Annual Report of the Company for the financial year 2019-20 ("Annual Report 2019-20") have been mailed electronically (email) on August 31, 2020, to all the members whose email addresses are registered with the Company or the depositors/depository participants as on August 28, 2020. These documents are also available on the website of the Company at www.panasonicappliances.in and the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com

In pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 13, 2020 to Friday, September 25, 2020 (both

of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is providing e-voting facility to its members to exercise their right to vote by electronic means. The Company has entered into an agreement with National Services Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility. The e-voting platform will be opened for voting from Tuesday, September 22, 2020, at 9:00 a.m. IST and ends on Thursday, September 24, 2020 at 5:00 p.m. IST to enable members of the Company, holding shares either in physical form or dematerialized form as on the cut-off date i.e. September 18, 2020, to cast their vote electronically in respect of the business to be transacted at the AGM. The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. The Company has appointed Mr.M. Alagar, Practicing Company Secretary to act as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and

### Manner of registering/updating email address is as below:

- Members holding shares in physical mode, who have no registered/updated their email addresses with the Company, are requested to register/update the same by clicking https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx or by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested
- Members holding shares in dematerialized mode, who have no registered/updated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register/update their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat
- Any person, who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM, which is available in the Notice of the AGM, which is available on Company's website
- Such members may cast their votes using the e-voting instructions, in

Register of Beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. September 18, 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the General Meeting.

Corporate members intending to attend the meeting through their

the AGM, may register themselves as a speaker by sending their request from their registered email address mentioning their name DP ID and Client ID/Folio number, PAN, mobile number to papin.secretary@in.panasonic.com on or before September 18, 2020. Those members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending

the AGM, but shall not be entitled to cast their vote(s) again at the AGM. In case of any queries/grievances connected with the remote e-voting or the members need any assistance before or during the AGM, the members may contact Ms.Pallavi Mhatre, Manager, National Security Depository Limited, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 at the designated email IDs: evoting@nsdl.co.in or pallavid@nsdl.co.in or to

for Panasonic Appliances India Company Limited

Jayaprakash Kalappan Chief Financial Officer & Company Secretary FCS No.: 8009



Mahanadi Coalfields Limited (A Subsidiary of Coal India Limited) Jagruti Vihar, Burla - 768020, Dist. - Sambalpur, Odisha Ph. (EPABX): 0663-2542461 to 469 Website: www.mahanadicoal.in **Notice** 

All the tenders issued by CIL and its Subsidiaries for procurement of Goods, Works and Services are available on website of Coal India Ltd. www.coalindia.in, respective subsidiary Company, (MCL, www.mahanadicoal.in), CIL e-procurment portal https://coalindiatenders.nic.in and Central Public Procurement Portal https://eprocure. **gov.in** In addition, procurement is also done through GeM portal https://gem.gov.in". R-5008

### NOTICE

#### The CANARA Workshops Limited Registered effice: V S Kudva Road, Maroli, Mangalore - 575805

CHILDS 1909 KA 1943 PL 000 1075 Phone No. (0824) 221 1649, 221 3402 Erroll ID: conarasprings@igmoli.com Website: www.canarasprings.in.

### NOTICE TO THE MEMBERS

The 77"Arroyal general meeting of the shareholders of The Canara Workshops Limited will be held on Wednesday, the 30" day of September 2020 at 10:00 AM only through video conferencing ("VC")/ other audio-visual means ("OAVM"), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder read with General Circular No.14(2028 dated April 08. 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC DAVM. Members participating through the VC / BAVM facility shall be reckened for the purpose of quarum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Rotice of the AGM and the financial statements for the financial year 2019-20, along with Soard's Report. Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, have been sent on 29th August 2020 to the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company | Depository Participant(s). The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.canarasprings.in, and also on the website of the CDSL at www.evatingindia.com.

The documents referred to in the Natice of the AGM are available electronically for inspection without any fee by the members from the date of circulation of this Natice up to the date of ASM. Members seeking to inspect such documents can send an email to canarasprings@gmail.com invester@canarasprings.com

Instruction for remote a voting and a voting during AGM:

The Company is growiding to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at AGM by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes remotely, using the electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) on the dates mentioned herein below ("remate e-voting").

Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM by Central Depository Services (India) Limited (CBSL) and members attenting the AGM who have not least their vote(s) by remote avaring will be able to vate at the AGM through the "Insta Poll" facility made available by Central Depository Services (India) Limited (CDSL)

The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CBSL) to provide e-voting facility.

Information and instructions including details of user id and password relating to e-voting have been sent to the members through e-mail. The same login credentials should be used for attending the AGM through VC J DAVM.

The manner of remote e-voting and voting by members in the AGM holding shares in dematerialized mode, physical made and for members who have not registered their email addresses is provided in the Natice of the AGM and is also available on the website of the Company: www.canarasprings.inand also on the website of the CBSL at www.exctingindia.com. The remote a visting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Wednesday 23rd September, 2020 End of remote e-voting: 5:00 p.m. on Tuesday 29th September 2020

The remote a-visting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remate a voting module shall be forthwith disabled by CDSL upon expiry of the aloresaid period A person, whose name is recorded in the register of members or in the register

of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Saturday 19th September 2020 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or for participation at the ASM and voting through insta Poll. Manner of registering (updating email addresses is as below:

The shareholders who have not registered their email address and in consequence the AGM notice could not be serviced may get their email address registered with the Company by sending an email to the company at canarasprings@gmail.com | investor@canarasprings.com In case of any queries, shareholder may write to Company's Registrar and Transfer Agent- BgSE Financials Limited, Stack Eachange Towers, No.51, 1st Crass, J.C.Road, Bangaloro 560027. Ph. No. 080 41329661, E-mail : es\_sta@bfsl.co.in or avp rtaffbfslco.in

Members holding shares in dematerialised made, who have not registered Appliated their email addresses with their Depository Participants, are requested to register I update their email addresses with the Depository Participants with whem they maintain their demat accounts. After due verification, the Company's Registrar and Transfer Agent will forward their login credentials to their registered omail address.

Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Natice of the ASM, which is available on Company's website and CDSL's website.

Such members may cast their vates using the e-voting instructions, in the manner specified by the Company in the Notice of AGM. The members who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votels) again at the AGM.

In case of any query pertaining to execting, members may go through the instructions given in the notice and in case of any queries connected with e-voting. the user manual is available at download section of help section or write an email to helpdesk existing@cdslindia.com.In case of any grievances with respect to evaling, you may contact CDSL by e-mail at evoting@cdsl.co.in or write to the Company at canarasprings@gmail.com i investor@canarasprings.comor to RTA at following address:

X. OTHER INFORMATION

BgSEFinancials Limited. Stack Exchange Towers, No.51, 1st Cross, J.C.Road, Bangalore-560027.

Ph.No.08041329661

E-mail tes ita@bfd.co.inorava ita@bfd.co.in



BY ORDER OF THE BOARD For THE CANARA WORKSHOPS LIMITED

> Chairman & Managing Birector Stittivas YamanKudva (DIN:00125821)

In this DPS, all references to "Rs." or "INR" or "₹" are references to the Indian Rupee.

### SHIVA CEMENT LIMITED

CIN: L26942OR1985PLC001557 Regd Office: YY 5, Civil Township 7/8 Area Rourkela, Odisha- 769004. Email – investors@shivacement.com

NOTICE OF 34thANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURES DATES

NOTICE is hereby given that 34thAnnual General Meeting of Shiva Cement Limited will be held on Thursday, the 24th September, 2020 at 11.00 A.M through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC OAVM) facilityto transact the business as set out in the AGM Notice.

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulation, 2015, the Register of Members and share transfer books of the Company will remain closed from Friday18th September, 2020 to Thursday 24th September, 2020 (both days inclusive).

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act 2013, read with Rules made thereof and Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, the Company is providing facility to its Members holding shares as on 17th September, 2020, being cut-off date, to exercise their rights to vote on business to be transacted at the AGM of the Company. The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting). The Company has engaged NationalSecuritiesDepository Limited (NSDL) to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereof are as under:

- Date of Completion of dispatch of Notice of AGM -31<sup>st</sup> August, 2020.
- 2. The remote e-voting period commences on Monday 21st September 2020 from 09.00 a.m. and ends on Wednesday 23rd September 2020 at 5.00 p.m.
- The voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on 23<sup>rd</sup> September, 2020.
- 4. Any person who becomes the Member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 17th September, 2020 can send request to www.evoting@nsdl
- 5. In case of any query / grievance with respect to Remote E-voting members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs for Shareholders and Remote E-voting User Manual for Shareholders available under the Downloads section of NSDL's e-voting website or contact Mr. Amit Vishal, Senior Manager / Ms. Pallavi Mhatre Manager, NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013 at telephone no. 022 - 24994360 / 022 - 24994545 or toll free no. 1800 - 222 - 990 or at E-mail ID: amitv@nsdl.co.in / pallavid@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in
- 6. A Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote
- Scrutinizer's decision on the validity of a ballot form shall be final Pursuant to Regulation 44(1) and (2) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, members who do not have access to remote e-voting facility, may exercise their vote at the AGM of the Company by submitting the Ballot form which will be distributed at the AGM.

Place: Rourkela

Date :31 August, 2020

By order of the Board of Directors **Shiva Cement Limited** Sneha Bindra **Company Secretary** 

(formerly known as Altheon Enterprises Limited)

### Claris Limited

Registered Office: Claris Corporate Headquarters, Near Parimal Railway Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad - 380 006, Gujarat, India Tel. No.: +91-79-26563331, Email: investors@claris.in CIN: U11102GJ2013PLC076631

### NOTICE OF THE SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Seventh Annual General Meeting ("AGM") of the Members of CLARIS LIMITED (formerly known as Altheon Enterprises Limited) ("the Company") will be held on Monday, September 21, 2020 at 4:00 PM through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice convening AGM. The Company has sent the Annual Report along with the Notice

convening AGM on Saturday, August 29, 2020, through electronic mode to the Members whose email IDs are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs i.e. Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 (including any further amendment(s) or modification(s) thereto for the time being in force) ("Circulars"). The Annual Report along with the Notice of AGM is also available on the website of CDSL (agency for providing the remote e-voting facility) i.e. www.evotingindia.com. Pursuant to the provision of Section 108 and other applicable

provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any amendment(s) or modification(s) thereto for the time being in force), as amended from time to time, the Company is pleased to provide Members facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening AGM using electronic voting system ("e-voting") provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The detailed procedure/instruction for e-voting is mentioned in the Notice convening AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 14, 2020 ("cut-off

The remote e-voting period commences on Thursday, September 17, 2020 at 10:00 AM and will end on Sunday, September 20, 2020 at 5:00 PM. During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again Any person, who acquires shares of the Company and become a

Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to the helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting votes. In case of any queries or issues regarding e-voting, members may

refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400 013, Tel. No. 1800225533, Email ID: helpdesk.evoting@cdslindia.com

The Board of Directors have appointed M/s. SPANJ & Associates, Company Secretaries, as a Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and e-voting at AGM. The Notice of AGM is available on the website of the CDSL's website

www.evotingindia.com For Claris Limited

> (formerly known as Altheon Enterprises Limited) Kirit Kanjaria

> > Company Secretary &

Date : August 29, 2020 Place: Ahmedabad

Compliance Officer

RAM RATNA WIRES LIMITED (CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Oasis Complex, P.B.Marg, Worli, Mumbai 400 013 ◆ Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144 Email Id: investorrelations@rrglobal.com • Website: www.rrshramik.com

NOTICE is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business as set out in the Notice of the 28" AGM.

The AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated 5th May, 2020, 8th April, 2020 and 13th April, 2020 and SEBI circular dated 12th May, 2020 (collectively referred to as "circulars"). The instructions for joining the AGM though VC/OAVM are provided in the Notice of AGM. The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 has been sent

electronically to all the members at their email address as registered with the Company/Depository Participant in compliance with the above circulars. These documents are also available on the Company's Website www.rrshramik.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. The Members who have not registered their email address are requested to register their email address with Depository Participant if shares are held in dematerialised form and if shares are held in physical form than register the same with the Company / RTA at investorrelations@rrglobal.com or sandeep@bigshareonline.com by providing details such as Name, Folio No., Certificate No., PAN, mobile no., email address etc. NOTICE pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation

42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 19th September, 2020 to Thursday, 24th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of the AGM and ascertainment of members for entitlement of dividend on equity shares of the Company for the financial year 2019-20, if approved by the members in the AGM. The Members are requested to update/register their Electronic clearing system (ECS) with complete bank details in order to receive dividend directly to their bank account with Depository Participant if shares are held in dematerialised form or with Company's RTA if shares are held in physical form at E mail: investor@bigshareonline.com, sandeep@bigshareonline.com by providing requisite details.

The e-voting period commences on Monday, 21st September, 2020 at 9.00 a.m. and ends on Wednesday, 23" September, 2020 at 5.00 p.m. During this period the Shareholders of the Company holding shares either in Physical form or in dematerialised form, as on cut-off date i.e. Friday, 18" September, 2020, may cast their vote electronically through electronic voting system provided by NSDL. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice but holds shares as on the cut-off date i.e. 18" September, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any queries regarding attending of AGM or e-voting, you may refer

the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at www.evoting.nsdl.com or can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in/1800-222-990.

By Order of the Board of Directors For Ram Ratna Wires Limited

Place : Mumbai Dated: 31<sup>st</sup> August, 2020

Saurabh Gupta Company Secretary

## CAPITALINDIA

CAPITAL INDIA FINANCE LIMITED CIN: L74899DL1994PLC128577 Regd. Off: 2nd floor, DLF Centre, Sansad Marg, New Delhi - 110001

Rediscover Supress

P.: 011-49546000 | Website : www.capitalindia.com Email: secretarial@capitalindia.com INFORMATION REGARDING THE 26TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD IROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting ("AGM") of the

Members of Capital India Finance Limited ("the Company") will be held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") on Monday September 28, 2020 at 11:00 A.M. (IST) to transact the businesses as set out in the Notice dated July 31, 2020, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder, and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") and such other applicable circulars issued by MCA and SEBI (collectively referred to as

In compliance with the abovementioned Circulars, electronic copies of the Notice convening the AGM along with explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act and Annual Report for the financial year 2019-20 ("Annual Report"), shall be sent within the prescribed timelines by e-mail to all those members whose emai IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). The Notice of the AGM along with Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.capitalindia.com, website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com and the website of the stock exchange where the

Dispatch of Notice and Annual Report via e-mail:

equity shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Electronic voting and participation at the AGM: The Company will be providing Members, the facility to cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of AGM ("remote e voting"), to participate in the AGM through VC/OAVM facility and to electronically cast their votes during the AGM ("e-voting"). Members joining the AGM through

VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section Manner of registering/updating email addresses: Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email address with the Company are requested to update their email address by writing to the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") at einward.ris@kfintech.com or to the Company at secretarial@capitalindia.com along with the copy of signed request letter mentioning inter alia folio no, name and address of the shareholde

Passport, Adhaar Card etc.) in support of the address Members holding shares in dematerialised mode are requested to register/update their email addresses with the relevant Depository Participants. Manner of receiving dividend Members, to receive the dividend directly into their bank account through Electroni

scanned copy of the share certificate (front & back), self-attested copy of PAN Card

self-attested copy of any document (such as Driving License, Election Identity Card

Members holding shares in physical mode may write an email to RTA or Company at einward.ris@kfintech.com or secretarial@capitalindia.com, respectively, along with the necessary documents inter alia (i) scanned copy of signed request letter which shall contain member's name, folio number, bank details (Bank accoun number, Bank and Branch name and address, IFSC, MICR details); (ii) a self

attested copy of PAN card; and (iii) copy of a cancelled cheque leaf (with

Members holding shares in Demat mode may reach out to their Depositories Participant(s) with whom they maintain their demat account(s) and get their bank account details registered/updated in the demat account(s), by following the process advised by the Depository Participant(s). In the event the Company is unable to pay the dividend to any Member by electronic

mode, due to non-availability of the details of the bank account, the Company shall dispatch the dividend warrant/other payment instrument to such shareholder by Manner of casting votes through e-voting: Members shall have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice convening AGM through remote e-voting system. The facility

The login credentials and procedure for casting votes through remote e-voting and e-voting during the AGM shall be made available to the Members through email after successfully registering their email address in the manner provided above Please note that same login credentials are required for participating in the AGM through VC/OAVM and e-voting on the resolutions during the AGM. The detailed procedure for casting the votes through e-voting shall be provided in

for e-voting will be made available at the AGM to the Members who have not cast

the Notice of the AGM. The details shall also be made available on the website of the Company This Notice is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company in compliance with applicable Circulars of MCA and SEBI.

For Capital India Finance Limited Rachit Malhotra Date: August 28, 2020 Company Secretary & Compliance Officer

REGISTRAR TO THE OFFER

SATELLITE

SATELLITE CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED

Unit No 49, Building No 13AB, 2nd Floor, Samhita

Commercial Co-Op Society Ltd, Off Andheri Kurla Road,

MTNL Lane, Sakinaka, Mumbai -400072, Maharashtra,

9. Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, the Acquirer and the PACs have appointed Systematix Corporate Services Limited as "Manager to the Offer" and Satellite Corporate Services Private Limited as "Registrar to the

### SYSTEMATIX GROUP Investments Re-defined

MANAGER TO THE OFFER

Place: New Delhi

SYSTEMATIX CORPORATE SERVICES LIMITED The Capital, A Wing, 603-606, 6th Floor, Plot No. C-70, G

Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India.

Telephone: +91 22 6704 8000 Fax: +91 22 6704 8022

E-mail: ecm@systematixgroup.in Website: www.systematixgroup.in Contact Person: Amit Kumar

Website: www.satellitecorporate.com Contact Person: Harish Devadiga SEBI Registration No.: INR000003639

E-mail: info@satellitecorporate.com

Telephone: +91-22-2852 0461/462

 A copy of Public Announcement ("PA"), this Detailed Public Statement ("DPS"), Draft Letter of Offer ("DLOF") and the Letter of Offer ("LOF") would also be available at SEBI website: www.sebi.gov.in.

Fax: -+91-22-2851 1809

Mrs. Farheen Murtuza Mansoorbhai

Mrs. Shivani Sharda Sharma Date: August 29, 2020

Place: Mumbai

Chennai, August 31, 2020 The Equity Shares of the Target Company are listed and traded on BSE. The Acquirer and the PACs intend to use the 'Acquisition Window Platform' of BSE Limited for the purpose of this offer and for the same BSE Limited shall be the designated stock exchange for the purpose of tendering Equity Shares in the Open Offer. Further, Separate Acquisition Window will be provided by the BSE Limited to facilitate placing of sell orders. The Selling members can enter orders for

demat shares as well as physical shares. 5. The Equity Shareholders will have to ensure that they keep a DP/Demat Account active and unblocked to receive credit in case of return of Equity Shares due to rejection or due to prorated Open Offer.

6. The Acquirer and the PACs has appointed Systematix Shares and Stocks (India) Limited as the "Buying Broker" for the

Open Offer through whom the purchase and the settlement of the Open Offer shall be made during the Tendering Period. The contact details of the Buying Broker are as mentioned below: Systematix Shares and Stocks (India) Limited

A/603-606, The Capital, Plot C-70, G-Block, BKC, Bandra (East), Mumbai 400 051, India

Equity Shares tendered etc.

Tel. No. +91-22-6704 8000; Fax No. +91-22-6704 8029;

Email:compliance@systematixgroup.in; Contact Person; Mr. Rajkumar Gupta.

All the shareholders who desire to tender their Equity Shares under the Open Offer would have to intimate their respective stock broker ("Selling Broker") during the normal trading hours of the secondary market during the TP. Upon placing the bid, the Selling Broker(s) shall provide the Transaction Registration Slip ("TRS") generated by the exchange bidding system to the shareholder. TRS will contain details of order submitted like Bid ID No., DP ID, Client ID, No. of

Shareholders who wish to bid /offer their physical shares in the Offer are requested to send their original documents as mentioned in the LOF to the Registrar to the Offer so as to reach them within 2 days from closure of the TP. It is advisable to email scanned copies of the original documents mentioned in the LOF, first to the Registrar to the Offer then send physical copies to the Collection Centre. If the Seller's broker is not a registered member of BSE, the Seller can place their bids through the Buying Broker

subject to fulfilment of the account opening and other KYC requirements of the Buying Broker. 10. The process of tendering Equity Shares by the Equity Shareholders holding in demat and physical Equity Shares will

be separately enumerated in the Letter of Offer

 In accordance with the Frequently Asked Questions issued by SEBI, "FAQs - Tendering of physical shares in buyback offer / open offer/ exit offer/delisting" dated February 20, 2020, SEBI Circular no. SEBI /HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/144 dated

July 31, 2020 and BSE notice no 20200528-32 dated 28 May 2020, shareholders holding securities in physical form are allowed to tender shares in open offer. However, such tendering shall be as per the provisions of the SEBI (SAST) Regulations.

8. The Acquirer and the PACs may refrain themselves to send the LOF to non-resident shareholders holding less than 5%

Offer even if LOF is not sent to them but they need to provide relevant tax-declarations as mentioned in the LOF.

Mr. Murtuza Mansoorbhai

New Delhi

SEBI Registration No: INM000004224

Signed by the Acquirer and the PACs

financialexp.epap.in

days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. In pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20

transparent manner.

- copy of PAN card at papin.secretary@in.panasonic.com.
- After due verification, the Company/Integrated will forward their login credentials to their registered address.

the manner specified by the Company in the Notice of AGM. A person whose name is recorded in the Registrar of Members or in the

Authorized Representatives are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution/Powerof Attorney to the Company through e-mail to papin.secretary@in.panasonic.com authorizing their representatives to attend and vote at the meeting. Members who would like to express their views or ask questions during

on the availability of time at the AGM. The members who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend

the Company email ID: papin.secretary@in.panasonic.com. By order of the Board

Place: Margalore Date: 31.08.2020

IX. It must be noted that the detailed procedure for tendering the shares in the offer will be available in the Letter of Offer ("LOF"). Kindly read it carefully before tendering Equity Shares in the Offer. Equity Shares once tendered in the Offer cannot be withdrawn by the Shareholders.

Announcement and this Detailed Public Statement and also accept responsibility of their obligations under the SEBI (SAST) Regulations. 2. In this DPS, any discrepancy in any table between the total and sums of the amount listed is due to rounding off and/or

The Acquirer and the PACs jointly and severally, accept full responsibility for the information contained in the Public

holding of the Equity Shares (physical or demat) in the Target Company. 5. Shareholders are also requested to read the recommendations of Independent Directors of the Target Company before tendering their Equity Shares in the Offer.

4. To participate in the Offer, shareholders are required to have an active DP/ Demat Trading Account irrespective of their

final observations from SEBI within the time due to any reasons whatsoever. 7. If the Offer gets delayed, the Manager to the Offer will release a revised schedule for the activities one working day prior to the revised TP alongwith details of the "Acceptance Date" and the "Settlement Date" for the Offer in the same newspapers in which this DPS is published.

6. The tentative schedule as mentioned at Section VII of this DPS may change if the Manager to the Offer does not receive

of the Diluted Share and Voting Capital in accordance with Regulation 18(2) of the SEBI (SAST) Regulations since local laws or regulations of any jurisdiction outside India may expose the acquirer or the target company to material risk of civil, regulatory or criminal liabilities in the event the letter of offer in its final form were to be sent without material amendments or modifications into such jurisdiction, and the shareholders resident in such jurisdiction hold Equity Shares entitling them to less than five per cent of the voting rights of the Target Company. However, non-resident can participate in the Offer even if LOF is not sent to them. However, non-resident can participate in the